

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदिशा मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

प्रपत्र

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. आर. भावसार	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, इन्दौर	विकासखण्ड इन्दौर जिला इन्दौर
2	श्री आर. के. पाराशर	सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, इन्दौर संभाग इन्दौर	—''—
3	श्री आर. के. दीक्षित	डी.सी.(डी) एवं पी. ओ. जिला पंचायत, इंदौर	—''—
4	श्री अनिल चुघ	कार्यपालन यंत्री, इंदौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
5	श्री एस. सी. शर्मा	सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लो.स्वा.यां.वि., इन्दौर	—''—
6	श्री जी. एन. सिंह	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री आर. के. राय	सहायक संचालक, कृषि कार्यालय, प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर.	विकासखण्ड इन्दौर जिला इन्दौर
8	श्री एस. सी. उपाध्याय	हार्तिकल्चर सेल प्रभारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
9	श्री एम. पी. विमल	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
10	श्री अशोक परवाल	कार्यपालन यंत्री, कार्या. अधीक्षण यंत्री, जलसंसाधन मण्डल, इन्दौर	—''—
11	श्री एस. के. दुबे	संभागीय उप संचालक, कार्यालय उप संचालक नगर प्रशासन, इन्दौर	—''—
12	श्री एस. के. सिन्हा	परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, कलेक्टोरेट, इन्दौर	—''—
13	श्री ए. के. दुबे	कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना, इन्दौर	—''—
14	श्री नवीन गड़करी	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन्दौर	—''—
15	श्री सलिल कटारे	संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर	—''—
16	श्री महेन्द्र दीक्षित	उप पंजीयक (न्यायिक), श्रम शिविर, इन्दौर	—''—
17	श्री राजेन्द्र कुमार मण्डलोई	सी.डी.पी.ओ., इन्दौर महिला एवं बाल विकास, इन्दौर	—''—
18	श्री एस. एस. भाटिया	सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर.	—''—
19	श्री एस. के. खरे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर प्रिमियम को आपरेटिव्ह बैंक, इन्दौर	—''—
20	श्री अशोक कुमार गुप्ता	जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, ऊर्जा विभाग, निगम, इन्दौर	—''—
21	श्री एम. के. बोबडे	सहायक यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
22	श्री बी. एल. मालवीय	सहायक यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
23	श्री सर्वस पसीने	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर	—''—
24	श्री आर. के. महाजन	परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर	—''—
25	श्री जगदीश कनोज	उप आयुक्त, सहकारिता श्रम शिविर, इन्दौर	विकासखण्ड सांवेर जिला इन्दौर
26	डॉ. एम. सी. जीनवाल	जिला मलेरिया अधिकारी, इन्दौर	—''—
27	श्री सी. पी. मुंदड़ा	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
28	श्री आर. के. शर्मा	उप संचालक, कार्या. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन, बोर्ड, इन्दौर	—''—
29	श्री बी. एस. बिस्ट	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास, निगम, इन्दौर	—''—
30	श्री आर. सी. वर्मा	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
31	श्री डी. एल. गोयल	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर	—''—
32	श्री ए. के. टूटेजा	कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. पश्चिम परिक्षेत्र, इन्दौर	—''—
33	श्री जी. के. तिवारी	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर	—''—
34	श्री रमन महाजन	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
35	श्री संतोषकुमार श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी, इन्दौर	—''—
36	श्री अम्बाराम बामनिया	सहायक प्रबंधक, कार्यालय राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, इन्दौर	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)
37	श्री सुबोध रोकडे	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मेकेनिकल खण्ड, इन्दौर.	विकासखण्ड सांवेर जिला इन्दौर
38	श्री बी. एस. संकत	कार्यपालन यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर	—''—
39	श्री एस. सी. अग्रवाल	संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, इन्दौर संभाग, इन्दौर	—''—
40	श्री जे. आर. पाण्डेय	उप संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, इन्दौर	—''—
41	श्री आलोक मीणा	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, इन्दौर संभाग, इन्दौर	—''—
42	श्री कमलसिंह	कार्यपालन यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नि. 88, बसंत बिहार, इन्दौर	—''—
43	श्री के. एस. चौहान	उप नियंत्रक, नापतौल, इन्दौर	—''—
44	श्री आनंद राणे	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर	—''—
45	श्री एस. एन. खण्डेलवाल	जिला प्रबंधक, एम.पी. एग्री., इन्दौर	—''—
46	श्रीमती संध्या व्यास	संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, इन्दौर संभाग, इन्दौर	—''—
47	श्री आर. के. सिंह	मुख्य नगर नियोजक, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
48	श्री बी. के. सक्सेना	संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग, इन्दौर	—''—
49	श्री अनिल जैन	अधीक्षण यंत्री, नगर प्रशासन, इन्दौर	—''—
50	श्री सुनिल कुमार परनाम	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, इन्दौर	—''—
51	श्री एम. खान	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, राजेन्द्र नगर बुनियादी प्रशिक्षण शाला, इन्दौर.	—''—
52	श्री किशोर शिन्दे	उप संचालक, शिक्षा, एम.ओ.जी. लाईन, इन्दौर	—''—
53	श्री एन. एन. गांधी	अधीक्षण यंत्री, डब्ल्यू.आर.डी., इन्दौर	—''—
54	श्री एस. पी. अहिरवार	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था संभागीय कार्यालय, इन्दौर.	—''—
55	श्री आर. एस. द्विवेदी	कार्यपालन यंत्री, विद्युत म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो-संरचना विकास मण्डल, इन्दौर.	—''—
56	श्री एस. एस. गुप्ता	अधीक्षण यंत्री, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	—''—
57	श्री पी. के. पाडलीकर	कृषि यंत्री, कार्यालय कृषि यंत्री, इन्दौर संभाग, इन्दौर	—''—
58	श्री संजय पण्डित	सहायक प्रबंधक, कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर.	—''—